



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY



भाग II—खण्ड 4  
PART II—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 22] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 16, 1981/कार्तिक 25, 1903  
No. 22] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 16, 1981/AKARTIKA 25, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation

रक्षा मंत्रालय

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 16 नवम्बर, 1981

का. नि. आ. 26-ई.—सशस्त्र सेना (आपात दृष्टियों)  
अधिनियम 1947 (1947 का 15 वां) की धारा 2 की उपधारा  
(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत  
सरकार, रक्षा मंत्रालय की दिनांक 18 अप्रैल 1981 की अधि-  
सूचना संख्या का. नि. आ. 14-ई, 16 मई 1981 की अधिसूचना  
संख्या का. नि. आ. 15-ई, 16 जून, 1981 की अधिसूचना  
संख्या का. नि. आ. 17-ई, 16 जुलाई 1981 की अधिसूचना  
संख्या का. नि. आ. 18-ई, 17 अगस्त, 1981 की अधिसूचना  
संख्या का. नि. आ. 21-ई, 16 सितम्बर, 1981 की अधि-  
सूचना संख्या का. नि. आ. 22-ई तथा 17 अक्टूबर, 1981 की  
संख्या का. नि. आ. 25-ई के अन्तर्गत में केन्द्र

सरकार, एतद्वारा असम राज्य में पेट्रोलियम उत्पादों के  
निर्माण, संभरण, संचालन और अनुरक्षण तथा पाइप लाइनों  
और तेल प्रतिष्ठानों को चलाने से सम्बन्धित प्रत्येक सेवा को  
18 नवम्बर 1981 से एक महीने की और अवधि के लिए समाप्त  
के लिए अत्यधिक महत्व की सेवा घोषित करती है।

[फा. सं. 2(35)/80/डी. (जी एस-1)]

MINISTRY OF DEFENCE

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 16th November, 1981

S.R.O. 26(E).—In exercise of the powers conferred by sub-  
section (1) of section 2 of the Armed Forces (Emergency  
Duties) Act, 1947 (15 of 1947), and in continuation of  
the notifications of the Government of India in the Ministry  
of Defence S.R.O. No. 14-E dated the 18th April 1981,  
S.R.O. No. 15(E) dated the 16th May, 1981, S.R.O. No.  
17-E dated the 16th June 1981, S.R.O. No. 18-E dated the

16th July 1981, S.R.O. No. 21-E dated the 17th August 1981, S.R.O. No. 22-E dated the 16th September 1981 and S.R.O. No. 25-E dated the 17th October 1981, the Central Government hereby declares every service forming part of, or connected with, the generation, supply, operation and maintenance of petroleum products and running of oil installations and pipelines in Assam to be a service of vital importance to the community for a further period of one month with effect from 18th November, 1981.

[F. No. 2(35)/80/D (GS. I)]

का. नि. आ. 27-ई.—सशस्त्र सेना (आपात ड्यूटियों) अधिनियम 1947 (1947 का 15 वां) की धारा 2 की उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार असम राज्य में (क) विद्युत पूर्ति अधिनियम 1948 के अन्तर्गत गठित राज्य विद्युत बोर्ड की सेवाओं सहित जल और विद्युत के उत्पादन, सम्भरण और वितरण से संबंधित

सभी सेवाओं और (ख) ब्रेतार तथा टेलीफोन सेवाओं को समाज के लिए अत्यधिक महत्व की सेवाएं घोषित करती है।

[फा. सं. 2(112)/80/रक्षा (जी एस-1)]

सी.वी. नारायणन, संयुक्त सचिव(ई)

S.R.O. 27(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 2 of the Armed Forces (Emergency Duties) Act, 1947 (15 of 1947), the Central Government hereby declares (a) all services in connection with the production, supply and distribution of water and electricity including the services under the State Electricity Board constituted under the Electricity Supply Act 1948 and (b) any Telegraph and Telephone services in the State of Assam to be services of vital importance to the community.

[F. No. 2(112)/80/D (GS. I)]

C. V. NARAYANAN, Jt. Secy. (E)